

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 अगस्त 2022

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किसे 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज से सम्मानित किया गया?

- A) अजीत पीटर डुंगडुंग
- B) हृदीप पी. जनार्दन
- C) इंद्रजीत महथा
- D) कौशिक राजशेखर

सही उत्तर: D

ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने प्रतिष्ठित ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जीता है।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला?

- A) सुजाँय लाल थाउसेन
- B) सत्य नारायण प्रधान
- C) मनविंदर सिंह भाटिया
- D) होमकर अमोल विनुकांत

सही उत्तर: A

सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक डॉ. सुजाँय लाल थाउसेन ने नई दिल्ली में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 अगस्त 2022

प्रश्न -3

अगस्त 2022 में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास "पिच ब्लैक 2022" किस देश में होगा, जिसमें भारतीय वायु सेना भी भाग लेगी?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) सिंगापुर
- C) संयुक्त अरब अमीरात
- D) संयुक्त राज्य अमेरिका

सही उत्तर: A

रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन 19 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा। भारत सहित 17 से अधिक देशों के लगभग 2,500 कर्मी युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे।

प्रश्न -4

दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए?

- A) बांग्लादेश
- B) इंडोनेशिया
- C) श्रीलंका
- D) मालदीव

सही उत्तर: D

भारत और मालदीव ने मालदीव में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की सुविधा के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 अगस्त 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस देश की महिला लॉन बॉल टीम ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता?

- A) दक्षिण अफ्रीका
- B) मलेशिया
- C) भारत
- D) इटली

सही उत्तर: C

भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस श्रेणी की स्पर्धा में भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता?

- A) 102 किग्रा
- B) 96 किग्रा
- C) 85 किग्रा
- D) 72 किग्रा

सही उत्तर: B

भारत के विकास ठाकुर ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 96 किग्रा वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 अगस्त 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस देश की बैडमिंटन मिश्रित टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता?

- A) भारत
- B) ऑस्ट्रेलिया
- C) मलेशिया
- D) सिंगापुर

सही उत्तर: A

भारतीय बैडमिंटन टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के मिश्रित ग्रुप मैच में रजत पदक का दावा किया। बैडमिंटन मिश्रित टीम को मलेशिया के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा और उसे रजत से संतोष करना पड़ा।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला?

- A) सुरेश एन. पटेल
- B) प्रत्यूष सिन्हा
- C) पी.जे. थॉमस
- D) दीपक चौधरी

सही उत्तर: A

पद खाली होने के एक साल बाद सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 अगस्त 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस देश की टेबल टेनिस पुरुष टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता?

- A) दक्षिण कोरिया
- B) सिंगापुर
- C) भारत
- D) जापान

सही उत्तर: C

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मैच में भारत ने सिंगापुर को 3-1 से हराया था।

प्रश्न -10

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा छह वर्षों की अवधि के दौरान भारत में कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई?

- A) 92,000
- B) 80,000
- C) 75,000
- D) 65,000

सही उत्तर: C

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने छह साल की अवधि के दौरान 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा।